

21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 (भारत)

फोन : (91) (033) 2222-5612 / 5731 ई–मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com

21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 (INDIA)

Phone : (91) (033) 2222 5612 / 5731 E-mail : bhavsar.k@balmerlawrie.com सीआईएन/CIN : L15492WB1924GOI004835

Ref: BL/SE/2024

Date: 4th September, 2024

To,

The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),

The Secretary, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Company Code: BALMLAWRIE

Company Code: 523319

Dear Sir(s)/Madam(s),

Mumbai - 400 051

Subject: Newspaper Publication - Notice of the 107th Annual General Meeting (AGM) and E-voting Information

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of Newspaper Publication on the subject, "NOTICE OF THE 107TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION" published in the following newspapers on Wednesday, 4th September, 2024:

- 1. Financial Express (in all India English Edition)
- 2. Aajkal (in Bengali, Kolkata Edition)
- 3. Jansatta (in all India Hindi Edition)

The copies of the said newspaper advertisements shall also be available on the website of the Company at www.balmerlawrie.com.

For Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Sonal Sharma Compliance Officer

Enclosed: As above

Page 1 of 1

FINANCIAL EXPRESS

117, V Mall, Thakur Complex, Western Express Highway, Kandivali East, Mumbai 400 101. CIN: L46309MH1983PLC031246

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LTD

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 40[™] ANNUAL **GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Shareholders of Swadeshi Industries And Leasing Limited will be held on Friday, 27th September, 2024 at 03.30 p.m. at the Registered Office of the Company at 117, V. Mall, thakur Complex, Kandivali East Mumbai 400101 to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. The Company has sent notice of AGM on 3rd September 2024, through electronic mode to the Members whose email address are registered with the Company/Depositories in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular dated April 08 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and May 05 2022 and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022. The Annual Report for the financial year 2023-2024 is available and can be downloaded from the Company's website www.swadeshiglobal.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com.

In Compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, 20th September, 2024 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on 24ⁿ September, 2024 and shall close at 5.00 p.m. on 26th september. 2024. During this period, Members may cast their votes electronically The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter Those members who shall be present in the AGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and otherwise are not barred from doing so shall be eligible to vote through Polling during the AGM.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cutoff date may obtain the Login ID and password by sending request to evoting@nsdl.co.in However, if he/she is already registered with NSDL for remote evoting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting

For details relating to remote e-voting please refer to the Notice of AGM, In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to (Name of NSDL Official) at evoting@nsdl.co.in.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.swadeshiglobal.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com, BSE Limited at www.bseindia.com.

Date: 03/09/2024 For Swadeshi Industries And Leasing Limited Place: Mumbai Gaurav Jain

yaari

Yaari Digital Integrated Services Limited

(CIN:L51101HR2007PLC077999)

Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar,

Phase 1, Gurgaon - 122 016, Haryana Tel: 0124 6685800

Website: www.yaari.com, Email: sachin.ghanghas@yaari.com

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING.

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of Yaari Digital Integrated Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on

Thursday, September 26, 2024, at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing

("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as

listed in the AGM Notice dated August 28, 2024, convening the AGM in compliance

with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the

Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR

Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate

Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The

proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of

the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice

convening 17th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual

Report") has been sent, through electronic mode on September 3, 2024, to those

Members whose e-mail address is registered with the Company / Depository

The aforesaid documents are also available on www.yaari.com, https://evoting.kfin

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) ("the

Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from

Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive)

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules

and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the

Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their

right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services

of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting.

The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting

is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details

with regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding

shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility

For Individual Members:

demat mode with NSDL)

demat mode with CDSL)

https://evoting.kfintech.com

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 25.

2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting.

the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the

cut-off date i.e. September 19, 2024 may obtain the User ID and password in the

manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting

or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are

https://emeetings.kfintech.com/

holding shares in physical form:

as on Thursday, September 19, 2024.

https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in

https://www.cdslindia.com/ (holding securities in

Thursday, September 19, 2024. The voting rights

in the paid-up equity share capital of the Company,

of Members shall be in proportion to their shares

Monday, September 23, 2024 at 10.00 A.M.

Wednesday, September 25, 2024 at 5.00 P.M.

For non-Individual Members and Members

attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

tech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

address either with the Company or their respective DPs.

for annual closing (for the purpose of AGM).

DIN: 06794973 **Managing Director**

ACI INFOCOM LTD

Shop 109, 1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101 CIN: L72200MH1982PLC175476

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 42nd ANNUAL **GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Shareholders of ACI Infocom Limited will be held on Friday 27th September, 2024 at 11.00 A.M. at Registered Office at Shop 109,1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101 to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. The Company has sent notice of AGM on 3rd September, 2024, to the Members whose e-mail address are registered with the Company/Depositories unless any member has requested for a hard copy of the same. Hard copies of the Annual Report are being sent by the permitted mode to those Members who have not registered their e-mail addresses. The Annual Report for the financial year 2023-2024 is available and can be downloaded from the Company's website www.acirealty.co.in and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com

In Compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them ir the paid up equity share capital of the Company as on, 20nd September 2024 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Tuesday 24th September 2026 and shall close at 5.00 p.m. on Thursday 26th September 2024. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those members who shall be present in the AGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and otherwise are not barred from doing so shall be eligible to vote through Polling during the AGM.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent by the Company and holds shares as of the cutoff date may obtain the Login ID and password by sending request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote evoting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting their Votes.

For details relating to remote e-voting please refer to the Notice of AGM, In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.acirealty.co.in, NSDL at www.evoting.nsdl.com . BSE Limited at www.bseindia.com.

Date: 03/09/2024 Place: Mumbai

For Aci Infocom Limited

Kushal Chand Jain DIN: 03545081 **Managing Director**

Indiabulls

INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED CIN: U71290HR2019PLC077579

Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Gurgaon - 122 016, Haryana Tel: 0124 - 6685 800, Website: www.indiabullsenterprises.com, Email: chadda.deepak@ibenterprises.in

NOTICE OF 6TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting ("AGM") of INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 26, 2024, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the AGM Notice dated August 28, 2024, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 6th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 3, 2024, to those Members whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participants (DPs).

The aforesaid documents are also available on www.indiabullsenterprises.com. https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) ("the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM)

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective DPs.

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below:

https://emeetings.kfintech.com/		
For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com		
Thursday, September 19, 2024. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company, as on Thursday, September 19, 2024.		
Monday, September 23, 2024 at 10.00 A.M.		
Wednesday, September 25, 2024 at 5.00 P.M.		

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 25, 2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are provided in the AGM Notice.

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for Inspection by the Members.

Manner of registering/updating e-mail address:

- a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and KFintech at www.indiabullsenterprises.com/ and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda. Serilingampally, Hyderabad Rangareddy - 500032, Telangana.
- dated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/up-

Mr. Nishant Mittal (Membership No. 553860), Proprietor of M/s. N Mittal & Associates, Practicing Chartered Accountant, Gurugram has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting process.

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through VC/OAVM or the electronic voting, Members may contact Ms. C Shobha Anand, KFIn Technologies Limited Unit: Indiabulls Enterprises Limited, Selenium Tower B. Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001; E- evoting@kfintech.com.

> By Order of the Board For Indiabulls Enterprises Limited Deepak Chadda Company Secretary



BANSAL WIRE INDUSTRIES LIMITED CIN: L31300DL1985PLC022737

Registered Office: F-3, Main Road Shastri Nagar, Delhi-110052 **Ph**: 011-23651891/92/93

E-mail: investorrelations@bansalwire.com; Website: www.bansalwire.com

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

(VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the rules framed thereunder ("the Act") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard (hereinafter collectively referred as "Circulars"), Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 01:00 P.M.(IST), through Video Conferencing(VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. The deemed venue of the 39th AGM will be Registered Office of the Company. As the 39th AGM is being convened through VC/ OAVM, physical presence of the members at the venue is not required. In Compliance with the above referred Circulars, Notice of the 39th AGM and Annual

Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 will be sent, in due course, only by e-mail to those Members, whose e-mail address is registered with their respective Depository Participants ("DPs"). Since the entire shareholding of the Company is in dematerialized form, the members may update their emailid with the concerned depository before September 05, 2024 for AGM Notice and Annual Report 2023-24. The requirement of sending physical copies of the Annual Report (including notice of the AGM) has been dispensed with vide above-mentioned Circulars. However, a Member may demand the hard/soft copy of the same by writing to us at investorrelations@bansalwire.com. Notice of the 39th AGM and Annual Report will also be made available on Company's website www.bansalwire.com, Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

Manner of casting vote(s) and attending AGM

Remote e-voting (prior to 39th AGM) and e-voting (during the 39th AGM) facility will be provided to all Members to cast their votes on all the resolutions set out in Notice of the 39th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided in Notice of the 39th AGM.

Members can join and participate in the 39th AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. Detailed instructions for joining the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the 39th AGM.

The Company has appointed NSDL as the agency to provide e-voting facility. In case of any query regarding e-voting. Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at 022-4886 7000 or send request at evoting@nsdl.com or write an e-mail to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company at investorrelations@bansalwire.com. Manner of registering/updating e-mail address and other details

Members holding shares in Demat form are advised to register/update the particular

of their e-mail address, bank account, change of postal address and mobile number etc. to their respective DPs. The e-mail address registered with the DPs will be used for sending all the communications.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company. For Bansal Wire Industries Limited

Date: September 03, 2024 Place: New Delhi

Company Secretary and Compliance Officer

Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Registered Office: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001

CIN: L15492WB1924GOI004835

Telephone No.: 033 2222 5612

E-mail: bhavsar.k@balmerlawrie.com

Website: www.balmerlawrie.com

NOTICE OF THE 107™ ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

AND E-VOTING INFORMATION

The 107" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Balmer Lawrie & Co. Ltd.

("the Company") will be held on Thursday, 26" September, 2024 at 12 Noon IST



PRIME INDUSTRIES LIMITED (CIN: L15490PB1992PLC012662)

Regd. Office: Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - 141001 Punjab, Phone: 0161-5043500, 513

Website: www.primindustrieslimited.com, E-mail: prime_indust@yahoo.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of Members of the

Company will be held on Monday, 30th day of September 2024, at 5.00 P.M. at Hotel

Silver Stone, D - Block, SCO. 14-15, Dugri Rd, Near Libra Bus Service, Opposite Radha Swami Fatak, D-Block, Model Town Extension, Model Town, Ludhiana, Punjab 141002 to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting ("the Notice") for the Financial Year 2023-24. In compliance with MCA circulars and SEBI circular dated May 13, 2022, the Notice of 32nd Annual General Meeting and detailed instructions and information relating to evoting, has been sent through electronic mail to the members whose e-mail addresses

is also available on the Website of the Company at https://www.primeindustrieslimited.com/notice-of-agm-2023-2024.pdf and the Annual Report is available at https://www.primeindustrieslimited.com/annual-report-Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the

have been registered with the Company/RTA/Depositories and the same

facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by CDSL In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in dematerialised form are allowed to vote through their Demat Account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and

email address in their Demat Accounts in order to access e-Voting facility. The e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2024 at 10:00 AM and ends Sunday, September 29, 2024 at 5:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Friday, September 20, 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are

otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 20.09.2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares on the Cut-off date, may obtain a login ID and

password by sending a request to www.evotingindia.com. The Company has appointed Pooja Mahajan Kohli, Company Secretary in Practice, Proprietor of M/s. Pooja M Kohli & Associates as the Scrutinizer to scrutinize the evoting process and voting through Ballot Form in AGM, in a fair and transparent manner.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting is provided in

the Notice of the AGM. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the ensuing 32nd Annual General Meeting of the Company. In case shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com,

under help section or send an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058542 / 43 or 1800 225533. For Prime Industries Limited

Place: Ludhiana Date: 03.09.2024

Mohit Verma Company Secretary

Sumit Gupta

CIN: L74110GJ1994PLC021352 Registered Office: 8th Floor, Office No. 810, One World West, Near Bopal Approach, SP Ring Road, Iscon - Ambali Road, Bopal, Ahmedabad – 380058, Gujarat, India. **Telephone:** +91-9898537188 Email: info@yuranusinfra.com | **Website**: www.yuranusinfra.com

YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Members of Yuranus Infrastructure Limited will be held on Friday, September 27, 2024 at 02:00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Business as set out in the notice of AGM. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. 8th Floor, Office No. 810, One World West, Near Bopal Approach, SP Ring Road, Iscon - Ambali Road, Bopal, Ahmedabad - 380058,

The Government of India, Ministry of Corporate Affairs has allowed conducting the General Meeting ("Meeting") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), and dispended the personal presence of the members at the meeting. Accordingly, the Ministry of Corporate Affairs issued the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 prescribing the procedures and manner of conducting the General Meeting through VC/ OAVM. In terms of the said circulars, the Annual General Meeting (AGM) of the members will be held through VC/OAVM. Hence, members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The **Notice** of **AGM** along with **Explanatory** Statement have been sent through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that the Notice of AGM and Explanatory Statement have been uploaded on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com. Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and Members who have not registered their email address will be able to cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM either remotely (during remote e-voting period) or during the **AGM** as per the manner provided in the **Notice** of **AGM** to Members.

Further, Stakeholders take note that, Notice convening AGM has been dispatched to the Shareholders on their registered mail ids, in case of non receipt of Notice due to incorrect mail id registered or any other reason, notice convening AGM is also available on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com.

In light of the MCA Circulars, the shareholders whether holding equity shares in Demat form or physical form and who have not submitted their email addresses and in consequence to whom the Notice of AGM and Explanatory Statement could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered by following the procedure given below: a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by E-mail

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to csyuranus@outlook.com

c) Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents. The Register of Members and share transfer books of the Company will be closed from September 21, 2024 to September 27, 2024. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 20, 2024 ('Cut-off Date"), shall only be entitled to avail the facility

of remote e-voting as well as e-voting on the 30th Annual General Meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting and e-voting during the AGM to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means.

The remote e-voting will commence on **09:00 A.M.** on **Tuesday**, **September 24**, **2024** and will end on **05:00 P.M.** on **Thursday, September 26, 2024**. During this period, the Members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote electronically (Remote E-Voting). Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of evoting shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company

after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. Friday, **September 20, 2024**, are requested to refer to the Notice of **AGM**, available on the website of the Company at www.yuranusinfra.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com, for the process to be adopted far obtaining the USER ID and Password to cast the vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

The Shareholders are requested to note that in terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with respective Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and E-mail ID correctly in their demat account in order to access e-

Members can attend and participate in the 30th Annual General Meeting through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the **30th Annual General Meeting** are provided in the Notice of the **30th Annual General Meeting**. In case the Members have any queries or issues regarding e-voting or participation in the **AGM**, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or you can write an email to evoting@nsdl.co.in or Call us: - Tel: 1800-222-990 or Members may also contact Mr.

Anant Bhatt, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail to csyuranus@outlook.com or may call on 9898537188 for any further clarification. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For, Yuranus Infrastructure Limited

Nitinbhai Govindbhai Patel

Chairman Cum Managing Director DIN: 06626646

able to vote at the AGM. The detailed instructions regarding attending AGM remote

Commencement of remote e-voting: Monday, 23" September, 2024 at 09:00 A.M. End of remote e-voting: Wednesday, 25" September, 2024 at 05:00 P.M. A Member whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday,

e-voting or e-voting during the AGM. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time. The remote e-voting module shall be forth with disabled by KFIN upon expiry of the aforesaid period. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system provided during the AGM as per the instructions contained in the aforesaid Notice of the AGM.

their e-mail addresses with the Company are requested to submit requisite ISR Forms along with supporting documents to KFin through the modes described in the Notice of AGM. Members may contact M/s, KFin Technologies Limited, the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at the below mentioned details for registering their Unit - Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500032

Phone Number- 18003094001, iii. email: einward.ris@kintech.com

Members holding shares in demat form may contact their respective Depository

Any person, who has acquired shares and becomes a Member of the Company after the

dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e., Thursday, 19" September, 2024 (end of day) may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he / she is already registered with NSDL CDSL or KFintech for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and

Contact details: In case of any query / grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or the grievances may be addressed to Shri G Ramdas, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No.- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500032, or send an e-mail to einward ris@kintech.com or call

(both days inclusive). Upon declaration by the Members, dividend for the Financial Year 2023-24 shall be paid

Thursday, 19" September, 2024 (end of day) within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration. Shri Navin Kothari, Proprietor of M/s. N. K & Associates, Practicing Company

Secretaries, (Membership No. FCS 5935 and Certificate of Practice No. 3725) has been appointed to act as a scrutinizer for the e-voting process to ensure that the same is conducted in a fair and transparent manner.

> Sd/-Kavita Bhavsar

Date: 4" September, 2024 Membership No. ACS: 62593

financialexp.epapr.in

Place: Kolkata

through Two - Way Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical attendance of Members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the allied Rules made there under, read with para 3 and 4 of Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No.20/2020 dated 5" May, 2020 read with para 3 A of General Circular No. 14/2020 dated 8" April, 2020, sub para (i) A of General Circular No. 17/2020 dated

13" April, 2020 and General Circular No. 09/2023 dated 25" September, 2023. ("the MCA Circulars") to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM through voting The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent on Tuesday, 3" September, 2024 to shareholders holding the shares of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 23" August, 2024 (end of day) in the prescribed mode as per MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Master Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 dated 11" July, 2023 read with SEBI Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023. The Notice and the Annual Report are also available on the

(Registrar and Share Transfer Agent and Agency for providing the e-voting facility) on https://www.evoting.kfintech.com The Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at 107"AGM by electronic means ("e-voting") Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of KFIN on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be

website of the Company at https://www.balmerlawnie.com, on the website of the Stock

Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com

and www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFIN"

e-voting and e-voting is provided in the notice of the AGM. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

19th September, 2024 (end of day) only shall be entitled to avail the facility of remote

off date i.e., Thursday, 19th September, 2024 (end of day), may cast their vote

The Members of the Company who hold shares in physical form and have not registered e-mail addresses:

Selenium Building, Tower-B, Plot No.- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda

Participants for registration of e-mail Ids and other details. A Member may participate in the 107 AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

passwords for casting the vote.

on 18003094001 (toil free). The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 20" September, 2024 to Thursday, 26" September, 2024

to those shareholders who are holding shares of the Company as on the cut-off date i.e.,

FOR BALMER LAWRIE & CO. LTD.

Company Secretary Place: Ahmedabad F4767

Date: September 02, 2024

Kolkata

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for Inspection by the Members. their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and KFintech at https://yaari.com/ and https://ris.kfintech.com/clientservices/is-

provided in the AGM Notice.

500032, Telangana. b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat

Practicing Chartered Accountant, Gurugram has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through

KFin Technologies Limited Unit: Yaari Digital Integrated Services Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001 By Order of the Board For Yaari Digital Integrated Services Limited

Members entitled to vote through remote e-voting or during the

Commencement of

End of remote

e-voting period

remote e-voting period

Cut-off date for

determining the

are provided below:

Link for remote e-voting

Link to VC

Participants (DPs).

However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM. Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of

Manner of registering/updating e-mail address: Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated

c/default.aspx, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda. Serilingampally, Hyderabad Rangareddy -

Mr. Raj Kumar (Membership No. 501863), Proprietor of M/s. AMRK & Associates,

VC/OAVM or the electronic voting, Members may contact Ms. C Shobha Anand,

E- evoting@kfintech.com.

Place: Gurugram Date: September 03, 2024

Sachin Ghanghas

Place: Gurugram

Date: September 3, 2024

Company Secretary

Membership No. ACS: 53430



সরাসরি। এক্সক্রসিভ। ম্যাচ রিপোর্ট। বিতর্ক। ইন্টারভিউ। ডেসিং রুম। পরিসংখ্যান

শুক্রবার শেষ ম্যাচ প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে

বিষপ্প বিদায় সুয়ারেজের

আজকালের প্রতিবেদন

ফুটবলে লুই সুয়ারেজের মতো এমন প্রগাঢ় বৈপরীত্যের চরিত্র বিরল। নিজ কর্মকাণ্ডে অভিশাপ কুড়িয়েছেন, আবার সেই তিনিই ফুটবল দক্ষতায় দুনিয়া কাঁপিয়েছেন। অগুনতি গোল করে ক্লাব-দেশকে এনে দিয়েছেন অসীম সম্মান। বিদায়ী ঘোষণায় আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না গত দেড় দশকের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুয়ারেজ। কিঞ্চিত সামলে নিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'শুক্রবার প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন ম্যাচটাই দেশের হয়ে আমার শেষ ম্যাচ। সরে দাঁড়াতে চেয়েছি বলেই অবসর নিচ্ছি। ৩৭ বছর বয়স হয়েছে। জাতীয় দলে অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে। এবং এ-ও জানি যে, আমার পক্ষে আগামী বিশ্বকাপ খেলা প্রায় অসম্ভব। কোনও চোট–আঘাত বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে নয়, দলের সঙ্গে থেকে যে অবসর নিতে পারছি, এটাই আমার কাছে পরম আনন্দের। অত্যন্ত কঠিন একটা সিদ্ধান্ত ছিল। তবে শেষ ম্যাচে নিজেকে আরও একবার নিংড়ে দেব।'

বার্সিলোনা এবং লিভারপুলের হয়ে বহু ট্রফি জিতেছেন সুয়ারেজ। উরুগুয়ের সর্বকালীন সর্বোচ্চ স্কোরার হিসেবেই অবসরে যাচ্ছেন। দেশের জার্সিতে খেলেছেন ১৪২ ম্যাচ। তাতে তাঁর গোলসংখ্যা ৬৯। ২০০৭ সালে দেশের হয়ে অভিষেক হয় সুয়ারেজের। ২০১১ সালে উরুগুয়েকে কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন করানোর নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারও নির্বাচিত



সাংবাদিক সম্মেলনে অবসর ঘোষণা করছেন লুই সয়ারেজ। ছবি: এএফপি

হয়েছিলেন। সয়ারেজ বলছিলেন, 'জীবনে কোনও কিছর মূল্যে, কোনও পরিস্থিতিতেই কোপা আমেরিকা ট্রফি বিকল্প কিছ হতে পারে না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া।'

বিতর্ক সুয়ারেজের আজীবনের সঙ্গী হয়েছে। ২০১০ সালে ডাচ লিগে খেলাকালীন প্রথমবার নেতিবাচক কারণে খবরে আসেন। আয়াক্স বনাম পিএসভি আইন্ডহোভেন ম্যাচে পিএসভি-র ওটম্যান বাকালের ঘাড়ে কামড়ে দিয়ে মোট ৯ ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছিলেন সুয়ারেজ। লিভারপুলের হয়ে খেলার সময়ে চেলসির ব্রানিস্লাভ ইভানোভিচকে কামডে ১০ ম্যাচ নির্বাসনের মুখে পড়েন। ২০১০ বিশ্বকাপে ঘানার বিরুদ্ধে শেষ আটের ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে ঘানার গোলমখী প্রয়াস গোললাইনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে বাঁচিয়ে দেন। সুয়ারেজ লাল কার্ড দেখলেও, ঘানা পেনাল্টি নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত ছিটকেই যায়।উরুগুয়ে পৌঁছে যায় সেমিফাইনালে। নিজের দেশ ছাড়া বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে ধিকৃত হন উরুগুয়ে তারকা।

নিজের ভুল থেকে তখনও শিক্ষা নেওয়া অনেক বাকি। এবার বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চ, ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপে ইতালির জর্জিও চিয়েল্লিনিকে কামড়ে দিলেন। কেরিয়ারের কঠিনতম শাস্তি পেয়েছিলেন। ফুটবল থেকে চার মাসের নির্বাসন। এবং দেশের হয়ে ৯ ম্যাচের নির্বাসন। এর আগে ২০১১ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্যাট্রিস এভাকে বর্ণবিদ্বেষমূলক কটুক্তি করে ৮ ম্যাচের নির্বাসন এবং ৪০ হাজার পাউন্ড জরিমানার মুখে পড়েন। সুয়েরেজের অবসরে শুক্রবার ফুটবলের এক বর্ণময় চরিত্রের অবসান ঘটবে।

খেলার খুচরো

>>> যুবির সাফাই বাবা যোগরাজকে নিয়ে ফের বিড়ম্বনায় যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, 'ধোনির জন্য আমার ছেলের কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়।' আক্রমণ করে বসেন কপিলদেবকেও। যুবরাজ বললেন, 'বাবার মানসিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু উনি এটা মানতে চান না।'


>> ক্ষুব্ধ কোম্যান আয়াক্স ছেড়ে এবার সৌদি আরবের পথে স্টিভেন বাৰ্গউইন। সই করেছেন আল ইত্তিহাদে। তাঁর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হল্যাভ কোচ রোনাল্ড কোম্যান। তাঁর কথায়, 'খেলায় উন্নতি করা ওর মূল উদ্দেশ্য নয়। বেশি টাকা উপার্জনের জনাই বাৰ্গউইন সৌদিতে গিয়েছে।



এশীয় যুব তীরন্দাজিতে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন বাংলার জুয়েল সরকার। বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির এই ছাত্রকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা ব্যানার্জি ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

রাজ্য স্কুল গেমস শুটিং

রাজ্য স্কুল গেমসে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে অনুর্ধ্ব ১৭ বিভাগে সোনা জিতেছে সেনেট ক্লমিং অ্যাকাডেমির ছাত্র ভিক্টর ঘোষ দস্তিদার (ছবিতে মাঝে), রুপো জেতে রামমোহন মিশন হাইস্কুলের অস্টম শ্রেণির ছাত্র শৌনক ভট্টাচার্য (বাঁদিকে), ব্ৰোঞ্জ পায় শ্ৰীচৈতন্য টেকনো স্কুলের শ্রীন্দ্র কুমার সিং (ডানদিকে)। ছবি: আজকাল



वीएल 包

বামার লরী অ্যান্ড কোং লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ) রেজিন্টার্ড অফিস ঃ ২১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ সিআইএন: L15492WB1924G0I004835 টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ২২২২ ৫৬১২ ই-মেল ঃ bhavsar.k@balmerlawrie.com ওয়েবসহিট ঃ www.balmerlawrie.com

১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

কাম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রয়োজা সংস্থান ও তদস্তর্গত সহায়ক রুলস, তৎসহ পঠিত এই বিষয়ে কপোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') দ্বারা জারি করা জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে. ২০২০-এর প্যারা ৩ ৪ ৪ তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০-এর প্যারা ৩এ; জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০-এর প্যার (১)এ: এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ('এমসিএ নকুলারস') অনুসারে, ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে, সদস্যাদের বাস্তব উপস্থিতি ব্যতিরেকে **ট-ওমে ভিডিও** কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্য অডিও-ভিজায়াল মিনস ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে বামার লরী সাভে কোং লিঃ ('দা কোম্পানি')-এর সদসাদের ১০৭তম রার্থিক সাধারণ সভা (এজিএম) **বৃহস্পতিবার**, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ভারতীয় সমন্ন বেলা ১২টান্ন অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলারস এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এরাচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') মার্কার সার্কুলার যার রেফারেন্স নং -এসইবিফাই/এইচঙ/সিএফডি/পিওডি২/সিআইআর/পি/২০২৩/১২০ তারিণ্ ১ ১ই জুলাই, ২০২৩ তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার যার রেফারেন্স নং - এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ -পিওডি২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ অনযায়ী, নির্ধারি মোডে কটি অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ২৩শে আগস্ট, ২০২৪ (দিনের শেষে) তারিখে কোম্পানির শায়ার ধারণ-করা শেয়ারাস্কাল্যারাদর। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ১০১৩-১৪ আর্থিক বছারের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন (অ্যানুয়াল রিপোর্ট) **মঙ্গলবার, ওরা সেপ্টেম্বর, ২০২**৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে। বিঙাপ্তি ও আনুয়াল রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.balmerlawrie.com-তে, স্টব এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে, অর্থাৎ vww.bseindia.com এবং www.nseindia.com-তে এবং কে-ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড 'কে-ফিন') (ই-ডোটিং স্বিধা প্রদানের জনা নিযক্ত এজেন্সি এবং রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট)-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.kfintech.com-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ('ই-ভোটিং') ১০৭তম এজিএম-এ পাশ করার জনা সম্পাদনযোগ প্রজাবিত রেজলিউশনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থা করছেন সমস্যরা নিম্নলিখিত তারিখে কে-ফিন এর ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে দূরবতী স্থান থেকে সদস্যরা তাঁদের ভোট দিতে পারেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। পুনরায়, এজিএম চলাকালীন ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও পাওয়া যাবেঁ এবং রিমেট ই-ভোটিং দ্বারা পর্বে তাঁদেব ভোট দেননি একপ সদসারা এজিএম-এ হাজিব থাকতে পারেন এবং এজিএম-এ ভোট দতে পারবেন। এজিএম-এ হাজির থাকা এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আছে।

ভাটদানের নিম্নলিখিত সময়সীমার মধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে ঃ রিমোট ই-ভোটিং ওরু হবে ঃ সোমবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯টা। রমোট ই-ভোটিং শেষ হবেঃ ৰধবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫টা। একজন ব্যক্তি খার নাম, কটি-অফ ডেট, অর্থাং বৃহস্পতিবার. ১৯**শে সেপ্টেম্বর**. ২০২৪ তারিস (**দিনের শেষে)** ডিপোজিটরিগণের ছারা রক্ষণারেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়া эনারদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা নিতে পারবেন অথব এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধামে তার ভোট দিতে পারবেন।

উপরোক্ত তারিখ ৪ সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না এবং এই সময়সীমার পরে কে-ফিন ধারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কাট-অফ ডেট, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে (দিনের শেষে) ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড় কর্মে শেয়ার ধারণ-করা সদসারা ইলেক্ট্রনিক্যালি তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

ফজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ-করা সদস্যরা অথবা যাঁরা কোম্পানির কাছে তাঁদের ই-মেল আডে নথিভুক্ত করেননি এরূপ সদস্যরা, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ-করা কোম্পানির সদসারা এবং খাঁরা তাঁদের ই-মেল আড্রেস কোম্পানির লাছে নথিভক্ত করেননি, তাঁদের ই-মেল আাড়েস নথিভক্তকরণের জনা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো উপারে কে-ফিন এর কাছে সমর্থিত নথিপত্র সমেত প্রয়োজনীয় আইএসআর ফর্ম জমা করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তাঁদের ই-মেল আড্রেস রেজিন্টার করার জন্য নিম্নলিবিত বিবরণ সম্বলিত ঠিকানায় মেসার্স কে-ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফা: এজেন্ট (আরটিএ)-এর সঙ্গে সদস্যদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে ঃ ইউনিট – বামার লরী আন্ডে কোং লিঃ

সেলেনিয়াম বিশ্ভিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং ৩১ ও ৩২, ফিনানিয়াল ডিস্ট্রির, নানকরামওড়া সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দরাবাদ, রঙ্গারেডিড, তেলেঙ্গানা, ভারত-৫০০০৩২

ফোন নম্বর - ১৮০০৩০৯৪০০১ ৩. ই-মেল : einward.ris@kfintech.com

ডিমাটি ফর্মে শেয়ার ধারণ-করা সদস্যরা তাঁদের ইমেল আইডি ও অন্য বিবরণ রেজিস্ট্রেশনের জন নংশ্লিষ্ট ভিপোজিউরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর একজন সদস্য ১০৭তম এজিএম-এ এংশ নিতে পারবেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

একজন ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কটি-অফ ডেট অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২**৪ তারিখে (দিনের শেষে) শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@kfintech.com-এ অনুরোধ করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, তিনি যদি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জনা এনএসভিএল, সিভিএসএল রা কে-ফিনটেক এর সঙ্গে রেজিস্টার্ড থাকেন, সেঞ্চেত্রে তিনি ভোটদানের জন্য তাঁর বর্তমান ইউজার ঘাইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পার্বেন।

যোগাযোগের বিবরণ ঃ কোনও অনুসন্ধানের/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনারা https://evoting dintech.com-এর 'ডাউনলোড' সেকশনে গ্রাপ্তব্য ই-ডোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এবং সদস্যতে জনা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ (এফএকিউ) দেখতে পারেন অথবা শ্রী জি. রামদাস, সিনিয়র ম্যানেজার, কে-ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম বিশ্ভিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং ৩১ ও ৩২, ফিনাজিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দরাবাদ, রঙ্গারেডিড, তেলেঙ্গানা-৫০০০৩২ এর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানাতে পারেন অথবা ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ (টোল ফ্রি) নন্দরে কল করতে বা einward.ris@kfintech.com-এ ই-মেল করতে গারেন।

সদস্যদের রেজিস্টার ও কোম্পানির শেয়ার ট্রাসফার বুক শুক্রবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সমেত) বন্ধ থাকবে।

দস্যদের দ্বারা ডিব্রারেশনে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জনা ডিভিডেভ সেই সকল শেয়ারহোন্ড দেওয়া হারে, যাঁরা এরূপ ডিক্সারেশনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ সময়সীমার মাস্তা, কাট-অয ভেট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৯**শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে (দিনের শেষে)** কোম্পানিতে শেয়ার

শ্বজ্ঞ ও পরিজ্ঞন্ন উপায়ে ভোটলন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার জন্য স্ক্রাটিনাইজা হিসেবে কাজ করতে শ্রী নভীন কোঠারি, মেসার্স এন, কে. আন্ড অ্যাসোসিয়েট্স-এর স্বত্বাধিকারী গ্রাক্তিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিস (মেম্বারশিপ নং এফসিএস ৫৯৩৫ এবং সাটিফিকেট অফ গ্র্যাক্তিস নং ৩৭২৫)-কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বামার লরী আন্ড কোং লিঃ-এর তরমে

কবিতা ভাবসার কোম্পানি সেক্রেটারি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সেনস উইথ মাল্টিপল ডিসেবিলিটিস (দিব্যাঙ্গন)

(প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের (দিব্যাঙ্গন) ক্ষমতা প্রদান বিভাগ, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতাপ্রদান মন্ত্রক) মুট্টুকাডু, ইস্ট কোস্ট রোড, কোভালাম (পি.ও), চেন্নাই-৬০৩১১২, তামিলনাডু-ভারত, ফোন: ০৪৪-২৭৪৭২০৪৬, ২৭৪৭২১১৩, ২৭৪৭২৪২৩ এনএএসি দ্বারা স্বীকৃত: ISO 9001: 2015

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং ০৪ (আর)//২০২৪

নির্ধারিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং অন্য শর্তাবলি পুরণ সাপেক্ষে নিম্নলিখিত মঞ্জুর করা পদের জন্য এনআইইপি এম ডি (ডি) ভারতীয় নাগরিকগণের থেকে আবেদনপত্র আহ্যান করছেন যার বিবরণ নিম্নে:

ক্রম নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	গ্রহ্প/পে স্কেল	নিয়োগের পদ্ধতি
۵	অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর	০১ (এক)	গ্রহপ-এ	সরাসরি নিয়োগ/
	(মেডিক্যাল সায়েন্স)		₹৭৮,৮০০/- থেকে	ডেপুটেশন ভিত্তিতে
	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে		₹২,०৯,২००/-	
	ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত		লেভেল-১২	
			(৭ম সিপিসি)	
N	অ্যাসোসিয়েটস প্রোফেসর	০১ (এক)	গ্রহপ-এ	ডেপুটেশন ভিত্তিতে
	স্পিচ প্যাথোলজি এবং		₹৭৮,৮০০/- থেকে	
	অডিওলজি		₹২,०৯,২००/-	
			লেভেল-১২	
			(৭ম সিপিসি)	

বিজ্ঞাপনের বিশদ, আবশ্যক/বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা, বয়সের সীমা, আবেদনের আকার এবং নিয়োগের ফি ইত্যাদির বিশদের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট: <u>www.niepmd.tn.nic.in</u> দেখুন। এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশের থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি জমা করতে হবে।

> স্বা/-CBC 38118/11/0007/2425 ডিরেক্টর

Aajkaal: 04.09.2024: Kolkata, Siliguri

इंडियन बैंक **Indian Bank** 🗥 डलाहाबाद ALLAHABAD

বর্ধমান স্টেশন বাজার ব্রাঞ্চ জেলখানা মোড়, জে বি হাজরা রোড, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১) অধীনে] যহেতু: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ত্রাকশন অফ ফিনান্সিয়া ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ও ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অনুমোদিত আধিকারিক নীচে লেখা ঋণগুহীতাগণের প্রতি নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে টক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহান জানানো হয়েছিল উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ৰুলসমূহের ৰুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পা*শে লে*খা তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি(গুলি)র দখল নিয়েছেন। বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা/ জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্ধার নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ ও অন্যান্য খরচাপাতি সমেত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/বন্ধকদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অহণের জন্য সম্পাকত ঝণঅহাতা/ জ্ঞামনদার/বন্ধাক্দাতার মনোবোগ আকবণ করা হচ্ছে।				
ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা এবং ব্রাঞ্চের নাম	দায়বদ্ধ/ বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ)	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বকেয়া অর্থাঙ্ক ৩) দখলের তারিখ		
(ক) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: (১) মেসার্স মা মহামায়া উদ্যোগ, গ্রাম বলবাটি, পোঃঅঃ— তোরকোনা, জেলা— বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২৩ (পন্টিমবন্ধ); (২) মিঃ চঞ্চল সামন্ত, পিতা— শচীরঞ্জন সামন্ত, গ্রাম ও পোঃঅঃ— সেহারা পন্টিমপাড়া, লারেক বাজার, সর্দারপাড়া, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৩) মিসেস তনুশ্রী সামন্ত, স্বামী— মিঃ চঞ্চল সামন্ত, গ্রাম ও পোঃঅঃ— সেহারা পন্টিমপাড়া, লারেক বাজার, সর্দারপাড়া, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৪) ব্রী সৌরভম্মর সামন্ত, পিতা— চঞ্চল সামন্ত, গ্রাম ও পোঃঅঃ— সেহারা পন্টিমপাড়া, লারেক বাজার, সর্দারপাড়া, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৫) ব্রী আদিস দন্ত, পিতা— সূর্বেলুনাথ দন্ত, গ্রাম ও পোঃঅঃ— সারেঙ্গা উত্তরপাড়া, থানা— খণ্ডঘোষ, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৭) সমীরণ রায়, পিতা— প্রণবানন্দ রায়, গ্রাম— বামুনপাড়া, সেহারা, থানা— রায়না, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৮) জ্যোৎমা রায়, স্বামী— সমীরণ রায়, গ্রাম— বামুনপাড়া, সেহারা, থানা— রায়না, জেলা— পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ; (৯) সোমনাথ সামন্ত, জগৎবেড়, পোঃঅঃ— গ্রীপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৬, পূর্ব বর্ধমান—৭১৩১০৩, পন্টিমবন্ধ; (১০) শিপ্রা সামন্ত, স্বামী— সামন্যথ সামন্ত, জগৎবেড়, পোঃঅঃ— গ্রীপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৬, পূর্ব বর্ধমান—৭১৩১০, পন্টিমবন্ধ; (১০) শিপ্রা সামন্ত, স্বামী— সোমনাথ সামন্ত, জগৎবেড়, পোঃঅঃ— গ্রীপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৬, পূর্ব বর্ধমান—৭১৩১০, পন্টিমবন্ধ; (১০) শিব্র গৌরা রাইস মিল কর্পোনেকট জামিনদার), গ্রাম— বলবাটি, মুগলমারি—বোয়াইচঞ্জী রোড, তোরকোনা, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ (খ) বর্ধমান—বিত্রমার রাজ্ব ব্রাড, তোরকোনা, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান—৭১৩৪২৩, পন্টিমবন্ধ (খ) বর্ধমান—বিত্রমার রাজ্বর ব্রাঙ্ক	মালিকানাধীনে কারখানার জমি ও বাড়ি যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পীতাম্বরপুর, জে এল নং ৯৯, খতিয়ান নং ৬২৬, আর এস এবং এল আর প্রট নং ৫৭৩, আর এস খতিয়ান নং ১২৪, মৌজা– বলবাটি, জে এল নং ১০০, আর এস এবং এল আর প্রট নং ৪৩৩, আর এস খতিয়ান নং ১০৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৪৫, ২৬৩, জমির পরিমাপ– ১৫১ শতক, কৈয়র গ্রাম পঞ্চারেতের এলাকাধীন।	ত) ৼ১,৩০,৮৪,৭৭৮,০০ (এক কোটি তিরিশ লক্ষ চুরা হাজার সাতশো আটাত্তর টা মাত্র), ২৫.০৬.২০২৪ অনুযা		
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৪ / স্থান: বর্ধমান অনুমোদিত আধিকারিক, ইভিয়ান ব্য				

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN: L24131WB1948PLC095302

রেজিস্টার্ড অফিস: বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন: ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/ ২২২০ ০৬০০; ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com ই-মেল: pilani@pilaniinvestment.com

৭৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই–ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই **বিজ্ঞপ্তি** জারি করা হচ্ছে যে, পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (কোম্পানি) –এর সাতাত্তর (৭৭) তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম')–এর ১২ আগস্ট, ২০২৪–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবার নির্বাহের জন্য শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল উপায়ে ('ওএভিএম') আয়োজিত হবে।

সভা আয়োজিত হবে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট) ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানসমূহ, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) ও সার্কলার নং ৯/২০২৩, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (আগেকার সার্কলার নং সাপেক্ষ) (এমসিএ সার্কলার) যা পঠনীয় সার্কুলার নং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/১৬৭, তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (এমসিএ ও সেবি সার্কুলার) সংস্থানসমূহ অন্যায়ী।

উপরিলিখিত শর্তাদি মেনে কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে রাখা সকল শেয়ারধারকগণের প্রতি ২০২৩–২৪ অর্থবর্মের আর্থিক প্রতিবেদন সহ ৭৭ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি ই–মেল রূপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২১–২২ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদন সহ ৭৫ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.pilaniinvestment.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com–তে ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড–এর www.evotingindia.com–এ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই ভোটিং তথ্য

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪–এর রুল ২০ সহ পঠনীয় অ্যাক্ট–এর ১০৮ ধারায় ও লিঙ্কিং রেগুলেশনসের ৪৪ রেগুলেশন মাফিক কোম্পানি ৭৭ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে সেট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর মাধ্যমে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ভা স বেলা ৯.০০ ও শেষ বৃহস্পতিবার. ২৬ সেপ্টেম্বর. ২০২৪. ভা স বেলা বিকেল ৫.০০। ওই সময়ে বৈদূতিনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ নির্ণায়ক তারিখের ভিত্তিতে বাস্তবিক ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে বৈদৃতিন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ মিলবে। ভোটিংয়ের পর সিডিএসএল দ্বারা ভোটিং যন্ত্র নিস্ক্রিয় হবে। ভোটাধিকার প্রয়োগের পর তা বদলানোর স্যোগ মিল্বে না। ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদন সহ ৭৭ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর সদস্য হলে ও শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ নির্ণায়ক তারিখের ভিত্তিতে বাস্তবিক ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড মিলবে কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিশে টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ-কে nichetechpl@nichetechpl.com-এ বা কোম্পানিতে pilani@pilaniinvestment.com–এ অনুরোধ পাঠালে।

এজিএমে যোগদান ও ই–ভোটিং বিষয়ক তথ্য পেতে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন (এফএকিউ) দেখুন www. evotingindia.com-এর হেল্প সেকশন, বা ই মেল-helpdesk.evoting@cdslindia.com। বা কথা বলুন নিঃশুল্ক নম্বর-

🏿 ই–ভোটিং বিষয়ক অভিযোগ থাকলে কথা বলুন: মিঃ রাকেশ দলভি, সিনি ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউল্ডস, এন এম জোশি মারঞগ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই ৪০০০১৩, ই মেল- helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কথা বলুন নিঃশুল্ক নম্বর-১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ।

ভিসি/ ওএভিএম–এর দ্বারা সিডিএসএল–এর ই ভোটিংয়ে যোগ দিতে পারবেন সদস্য।

সদস্য www.evotingindia.com-এ রিমোট ই ভোটিং-এর লগ ইন শর্তাদি প্রয়োগ করে শেয়ারধারক/সদস্যতে তা পাবেন। ভিসি/ ওএভিএম-এর দ্বারা সভায় যোগদান প্রক্রিয়া এজিএম নোটিসে আছে।

সভায় বক্তা হতে চাইলে মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ভা স বেলা ৫.০০–এর মধ্যে নাম, ডিম্যাট এসি নং/ফোলিও নং, ই মেল, মোবাইল নং সহ pilani@pilaniinvestment.com-এ নথিভুক্ত হতে হবে। নথিভুক্ত হলে সভায় বক্তা হওয়া যাবে।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থাঃ-আর এস কাশ্যপ

স্থান: কলকাতা তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪

কোম্পানি সেক্রেটারি FCS-8588

তারিখ ঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ানুমোদিত আধিকারিক, ইভিয়ান ব্যাঙ্ক হ্রান ঃ কলকাতা এক৪৭৬৭

REGENCY HEALTH

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड

सीआईएन: U85110UP1987PLC008792

पंजीकृत कार्यालय: ए-२, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश

फ़ोन: 0512-3502480, ईमेल: company.secretary@regencyhealthcare.in,

वेबसाइट: www.regencyhealthcare.in

35वीं वार्षिक आम बैठक सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की

35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 की सुबह 9.30 बजे

IST कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश, भारत

में आयोजित की जाएगी । कंपनी ने शेयरधारकों को मंगलवार, 3 सितम्बर 2024 तक अनुमत

मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना भेज दी है। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट

है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

शेयरधारक ध्यान दें कि: ए) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद,

उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; बी) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी

उपलब्ध कराई जाएगी; सी) जिन शेयरधारक ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा

अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं,लेकिन दोबारा वोट डालने के

हकदार नहीं होंगे; और डी) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के

रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टरमें दर्ज है, वे रिमोट

इलेक्टॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के साथ-साथ एनएसडीएल दारा

शेयरधारकों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट <u>www.evoting.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और शेयरधारकों के

लिए 'ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर

अनुरोध भेज सकते है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के

लिए, शेयरधारक श्री योगी श्रीवास्तव, कंपनी सचिव, बी-5 सर्वोदय नगर कानपुर-208005

से, company.secretary@regency healthcare.in, दूरभाष # 0512-3502661

ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

Notice to Customers of Central Bank of India, Ranaghat Branch in connection with shifting of Branch premises to a New Premises

कोलकाता

Dispensary Lane, Ranaghat-741201 are hereby intimated that the Branch is being shifted to a more prominent premises situated at 13/A Swami Vivekananda Sarani Ranaghat-741201 The Branch will function from the new premises w.e.f. 1st October, 2024.

We sincerely regret for the inconvenience caused to you in this regard and assure you of our best services at all times.

Date: 04.09.2024, Place: Ranaghat

Branch Manager **Ranaghat Branch**

पर्व रेलवे ई-निविदा सूचना सं.: एनआईटी/02/24/51, दिनांक: 02.09.2024, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 के द्वारा निम्नलिखित सामानों की आपूर्ति हेत् ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। क्रम सं.; निविदा सं.; विवरण; बयाना राशि निम्नानुसार हैं: (1) 08241107; 25 केडब्ल्यू अल्टरनेटर के लिए इलेक्टॉनिक रेक्टिफायर-कम-रेगुलेटिंग युनिट (ईआरआरय्) का क्रय आदि : रु.1,71,560/-(2) 16245077; 38/66 केवी, एक्सएलपीई इंस्लेटेड कॉपर केबल 800 वर्ग मिमी. इ.3,86,910/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 16.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 1 एवं 2 हेत्) (3) 16245015ए; 160 वर्ग मिमी अनील्ड कॉपर स्ट्रैंडेड जंपर वायर आदि का क्रय; इ.2,04,150/-, निविदा खुलने की तिथि और समय: 17.09.2024 को 13.30 बजे (4) 12245334; बीसीएम मशीनों के स्पेयर्स; रू.4,45,720/-. (5)15245061; ईओटी क्रेन 25 टन क्षमता आदि की आपूर्ति, संस्थापन एवं आरंभ करना; ह.1,41,200/-, निविदा खुलने की तिथि और समय :18.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 4 एवं 5 हेत्) (6) 05241227; ट्रांसफॉर्मर ऑयल का क्रय; रु. 5,49,460/- (7) 10242531; बो असेंबली; रु.2,26,590/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 20.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 6 एवं 7 हेत्) (8) 05241031; एंटीवेयर हाइडॉलिक ऑयल आदि का क्रय; रु.1,91,510/ (9) 06241652; यूटीएस थर्मल पेपर टिकट रोल का क्रय; रु.2,97,890/-(10) 10235030; फ्लेक्सी कॉइल बोगी फ्रेम कम्प्लीट; इ.1,59,300/-. (11) 12245302; आरडीएसओ डॉ. नं. टी-8822 के तहत थिक वेब स्विच एक्सपैंशन जॉइंट के लिए चालू ठेका; रु. 50,00,000/ (12) 20242148; ईएमयू टीआर एवं मोटर कोचों आदि के एस.एस. (सीआरएफ) ट्रफ फ्लोर का क्रय; रु. 2,69,750/- (13) 20242183; मॉडिफाइड लैटरल डैंपरों के लिए पीओएच-किट संपूर्ण; रु.1,38,570/- (14) 20242184; मॉडिफाइड वर्टिकल डेंपरों के लिए पीओएच-किट संपूर्ण; रु.1,62,910/- (15) 20242199; 11 आइटमों से संलग्न एस्कॉर्ट्स प्रस्तुत टीवी टाइप शॉक अब्जॉर्बर (टीवी 600) 600 केजी x 600 केजी क्षमता के लिए पीओएच किट; रु.2,59,700/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 23.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 8 से 15 हेत्) (16) 10245022; माइक्रोप्रोसेसर की आपूर्ति, स्थापना एवं आरंभ करना; रु.16,82,660/- (17) 14241014; स्पेसिफिकेशन नं. आईआरएस :टीसी:68-2012 के तहत नवीनतम संशोधन के साथ प्राइमरी ड्रॉप /इंसर्ट एमयूक्स के 2 वायर/4 वायर ई एंड एम कार्ड (प्रति कार्ड 4 चैनल) का क्रय आदि; रु.1,37,110/- (18) 14241114; स्पेसिफिकेशन नं. आईआरएस :टीसी:68-2012 के तहत प्राइमरी ड्रॉप/इंसर्ट एमयूक्स के 2 वायर सब्सक्राइक लूप इंटरफेस कार्ड (प्रति कार्ड 4 चैनल) का क्रय आदि; रु.1,63,240/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 24.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 16 से 18 हेत्) (19) 11241811; डबल एक्टिंग हाइड्रॉलिक शॉक अब्जॉर्बर का क्रय आदि; रु.2,02,580/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 25.09.2024 को 13.30 बजे (20) 08241613ए; 110 बोल्ट, 40 एएच, लेड एसिड बैटरी; रु.2,40,340/- (21) 15235172ची; अनेक्सर/एचडीटीएल/केपीए (संदर्भ स्पेसि. नं. सीओएफएमओडब्ल्य्/आईआर/एम/सीएल/2019) के अनुसार हेवी ड्यूटी टर्निंग लेद की आपूर्ति एवं आरंभ करना (टर्नकी आधार पर); रु.6,60,000/, निविदा खुलने की तिथि और समय: 26.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 20 एवं 21 हेत्) (22) 01241431; डेंसिफाइड थर्मल बॉण्डेड पॉलिएस्टर ब्लॉक आदि का क्रय; रु.1,08,280/- (23) 01241432ए; डेंसिफाइड थर्मल बॉण्डेड पॉलिएस्टर ब्लॉक्स आदि का क्रय; रु.1,25,740/-(24) 15245068; एडवांस्ड वेपन्स सिमुलेटर -6 लेन का क्रय; रु.1,59,080/- (25) 20241829; ट्रैक्शन मोटर टाइप 253 बीडब्ल्यू एवं 4601 एजेड के लिए मॉडिफाइड फैन चेंबर (3.15 मिमी मोटा प्लेट); रु.1,58,960/- (26) 21241249; नट, स्प्रिंग वाशर के साथ की बोल्ट आदि का क्रय; रु.1,09,860/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 30.09.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 22 से 26 हेत्) (27) 11241123; फिएट बोगी के लिए रबर/मेटल शिम; ह.1,46,230/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 07.10.2024 को 13.30 बजे (28) 20241036ए; ईएमयू कोचों के शॉकू कपलर के लिए ड्रॉ एवं बफ गियर; रु.2.16.350/-निविदा खुलने की तिथि और समय : 08.10.2024 को 13.30 बजे (29) 21241057; हाई कैपासिटी ब्राफ्ट गियर आदि; रु.9,43,970/-, निविदा खुलने की तिथि और समय :14.10.2024 को 13.30 बजे (30) 11241803; अर्थिंग रेसिस्टर; रु.1,08,950/-, निविदा खुलने की तिथि और समय :15.10.2024 को 13.30 बजे (31) 11241037बी; बफर प्लंजर के लिए फेस प्लेट का क्रय आदि; रु.2,52,810/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 16.10.2024 को 13.30 बजे (32) 11241025; फिएट बोगी के साथ फिट किए हुए सभी एलएचबी कोचों के लिए प्राइमरी वर्टिकल डैंपर; रु.4,39,040/-, निविदा खुलने की तिथि और समय 23.10.2024 को 13.30 बजे (33) 11241049; लॉन्जिट्यूड साइड आदि; रु.1,77,100/ निविदा खुलने की तिथि और समय : 04.11.2024 को 13.30 बजे (34) 11241010; साइड

आईआरईपीएस की वेबसाइट देखें। निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under

Jagatballavpur Block, Howrah

invites e-Tender vide NIT No.

Pant/170A/2024, Pant/171/2024

Pant/172/2024, Pant/173/2024,

Pant/174/2024, Pant/175/2024,

Pant/176/2024, Pant/177/2024,

Pant/178/2024, Pant/179/2024,

Dated 02/09/2024. Last Date o

Submission of Bid 11/09/2024 upto

11 AM. For more information visit

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I. SANDIP KARMAKAR Son of

LATE SANKAR KARMAKAR,

Resident of Flat no. 203, 23/A,

Beniapara Lane, Serampore,

WB-712201 have changed my

SHREEJAGNI to SHREEJAGNI

KARMAKAR vide Affidavit

Ld.Judicial Magistrate First

0040747185-1

0050249746-1

dated 30.08.2024 before

I, INDIRA ROY S/O MOHINI

KUMAR ROY born on 09/10

/1940 residing at 109/31B /1,

KOLKATA-26 have changed my

name to INDIRA RAY vide affi-

HAZAR ROAD, KALIGHAT,

davit dated 02/09/2024 at

KOLKATA.

Class Serampore.

Doughter's Name from

https://www.wbtenders.gov.in

बेयरर आदि के लिए वेयरिंग पीस का क्रय; रु.3,17,060/- (35) 21241011ए; साइड फ्रेम

की; रू.3,87,450/-. (36) 21241277; लोड सेंसिंग डिवाइस आदि; रू.2,23,560/-, निविदा

खुलने की तिथि और समय : 18.11.2024 को 13.30 बजे (क्रम सं. 34 से 36 हेतु) (37)

11241078; एक्सल बॉक्स गाइड के एनएफटीसी/यूएचएमडब्ल्यूपीई पैकिंग रिंग आदि के लिए

किट का क्रय; रु.1,16,670/-, निविदा खुलने की तिथि और समय : 02.12.2024 को 13.30

बजे। निविदा मूल्य : रु.0 (क्रम सं. 1 से 37 प्रत्येक हेत्)। टिप्पणी: उपर्युक्त सभी निविदाएँ ई-

निविदाएँ हैं एवं सभी निविदाकारों से अनुरोध किया जाता है कि आईआरईपीएस की वेबसाइट

https://www.ireps.gov.in के माध्यम से अपनी बोली ऑनलाइन जमा करें। ऊपर

उल्लिखित निविदाओं एवं अन्य आपूर्ति निविदाओं के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए, कृपया

हमें यहाँ देखें : 💥 @EasternRailway 🚮 @ easternrailwayheadquarte

UTTARPARA-KOTRUNG

MUNICIPALITY e-Tender No.: UKM/PWD/ 012(e)/2024-25 dt 03.09.2024 Supplying and laying of D.I (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-18 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers at Sarada Pally in ward under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date-23/09/2024. For Details: www.wbtenders.gov.in

> Chairman, **U.K.** Municipality

दक्षिण पूर्व रेलवे

शुद्धिपत्र - 1 उप मुख्य विद्युत अभियंता (परियोजना), 11. कॉन्वेंट लेन, बेलियाघाटा, कोलकाता-700015 द्वारा 'ईपीसी प्रारूप में 3000

एमटी लदान के लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के हावड़ा-खड़गपुर अनुभाग में 2x25 केवी सिस्टम में 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी) तथा सब सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी) की डिजाइन, आपूर्ति, संरचना, जांच एवं चालु करने" के कार्य के लिए पूर्व प्रकाशित ई-निविदा सूचना सं. एसईआर-पीएसआई-एचडब्ल्युएच-केजीपी-2x25 केवी के तहत शुद्धिपत्र सं.-1 का यिवरण नीचे उल्लेखित है: मसौदा सीए में बदलाव: (1) आर्टिकल 10 के पैरा 10.3.1 - को पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि के स्थान पर "नियुक्ति की तारीख से [720वां (सात सौ बीस वां दिन)] समापन की निर्धारित तारीख ("समापन की निर्धारित तारीख") होगी" के रूप में पढ़ें। (2) अनुसूची-1 के पैरा 5.1 - को पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि के स्थान पर "नियुक्ति की तारीख से [720वां (सात सौ वीस वां दिन)] समापन की निर्धारित तारीख ("समापन की निर्धारित तारीख") होगी" के रूप में पढ़ें। निविदा के अन्य सभी नियम एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। ई-निविदा सूचना के विवरण के साथ शुद्धिपत्र सं.-01 वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध

(PR-557/C)

www.regencyhealthcare.in और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में, शेयरधारकों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है और कारोबार ऐसी वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 22 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 25 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे IST के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किये हैं और कंपनी का शेयरधारक बन गया है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत

दिनांक: 3 सितंबर, 2024

स्थानः कानपुर

पर संपर्क कर सकते हैं।

योगी श्रीवास्तव कंपनी सचिव

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड के लिए



बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) सीआईएन : L65999WB2001GOI093759

पंजीकृत कार्यालयः 21, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001 दूरभाष नं. 033 2222-5227 ई-मेलः lahoti.a@balmerlawrie.com वेबसाइटः www.blinv.com

23वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम बुलाए जाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए र्कपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के साधारण परिपन्न सं. 20/2020 दिनांकित 5 गई. 2020 के पैरा 3 एवं पैरा 4 के साथ पठित साघारण परिपत्र सं, 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के पैरा 3ए, साधारण परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के उप पैरा (i)ए तथा साधारण परिपत्र सं. 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपत्रो") (इस संबंध में इसे सामृहिक रूप "एमसीए परिपन्न" कहा गया है) के अनुसार सदस्यों की शारीरिक रूप में उपस्थिति के **बगैर ट-वे वीडियो** कॉफ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो-विज्ञुअल साधनों ("ओएवीएम") के जरिए बामर लॉरी इनवेस्टमेंटस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 23वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") गुरुवार , 26 सितम्बर , 2024 को अपराहन 04.00 बजे आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपन्नों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") के मॉस्टर परिपन्न संदर्भ सं सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांकित 11 जुलाई, 2023 के साथ पठित सेबी परिपत्र संदर्भ सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी का शेयर रखने वाले शेयरधारकों की मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 के भेज दिए गए हैं। सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.blinv.com, स्टॉक एक्सचेंजों जहां केपनी की इक्विटी शेयरें सूचीबद्ध हैं की येबसाइट यानी www.bseindia.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") (ई-वोटिंग की सुविध प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट <u>https://www.evotingindia.com</u> पर भी उपलब्ध होगा। कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक साधनों ("ई-वोटिंग") द्वारा 23वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर उनके वोटाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर अपना योट रिमोटली ("रिमोट ई-वोटिंग") डाल सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपना बोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान वोट डालने में सक्षम होंगे। एजीएम में उपस्थित होने, रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के संबंध में विस्तारित निर्देशावलियां एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा नीचे उल्लेखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई-वोटिंग शुरूः सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को सुबह 09.00 बजे। रिमोट ई-बोटिंग की समाप्तिः वधवार, 25 सितम्बर, 2024 को अपराहन 5.00 बजे

जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे।

ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उपरोक्त अवधि के समाप्त होने पर सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोर्टिंग प्रारूप निष्क्रिय कर दी जाएगी। अंतिम तारीख यानी **गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक)** को मौतिक प्रारूप अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल का पता का पंजीकरण नहीं कराया है, वे एजीएम की ऊपर उल्लेखित सचना में उल्लेखित निर्देशाविलयों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अथवा एजीएम के दौरान प्रदत्त ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना चोट डाल सकते हैं।

कंपनी के सदस्यगण जो भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखते हैं तथा कंपनी के साथ अपने ई-मेल पता का पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अपने ई-मेल का पता पंजीयन कराने के लिए एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रारूप के माध्यम से मैसर्स सीबी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड पंजीयक तथा शेयर अंतरण एटेंज (आरटीए) के पास समर्थित दस्तावेज सहित अपेक्षित आईएसआर प्रपत्र जमा करने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यगण सीबी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, रसोई कोर्ट, पांचर्यी मंजिल, 20, सर आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 से सम्पर्क कर सकते हैं, ईमेल- rta@cbmsl.com, दुरभाष सं. - 033 4011 6700.

डिमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण ईमेल आईडी एवं अन्य विवरण के पंजीकरण के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों से सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के बावजूद भी सदस्यगण 23वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति सचना मेजे जाने के उपरांत शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बने है तथा अंतिम तारीख यानी **गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक)** शेयर घारण रखते हैं, <u>rta@cbmsl.com</u> पर अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं, तो वे सचना में उल्लेखित रिमोट ई-योटिंग / ई-वोटिंग के निर्देशायलियों का अनुसरण कर सकते हैं।

सम्पर्क विवरण: एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रश्न अथवा समस्या रहने पर आप helpdesk, evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की सुविधा के संबंध में सभी तरह की शिकायतें श्री राकेश दलवी वरिष्ठ प्रवंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट) मुंबई-400013 को संबोधित कर मेज सकते हैं अथवा helpdesk evoting@cdslindia.com पर डैमेल भेजें अथवा टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर कॉल करें।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण वही शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी। सदस्यों द्वारा घोषणा किए जाने पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लामांश अंतिम तारीखा यानी

गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी के शेयर धारण करने वाले शैयरधारकों को इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के अंदर भूगतान कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग के निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया के

जांचकर्ता के रूप में श्री नवीन कोठारी, मैसर्स एन. के. एण्ड एसोसिएट्स के स्वत्वाधिकारी, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 5935 एवं अभ्यास प्रमाणपत्र सं. 3725) को नियुक्त किया गया है।

कृते बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड अभिषेक लाहोटी

दिनांक : 4 सितम्बर, 2024 स्थान : कोलकाता

ह्यस्त्री hudco हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम) सीआईएन: L74899DL1970GO1005276, जीएसटी नंबर 07AAACH0632A1ZF पंजीकृत कार्यालयः हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफोन: 011-24646899, ईमेल: cswhudco@hudco.org, वेबसाइट: www.hudco.org.in

सूचना

54वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 54वीं वार्षिक सामान्य बैठक (AGM 25 सितंबर, 2024, बधवार को प्रात: 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में निर्धारित कार्य करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजअल साधनों (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपन्न दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित परिपन्न दिनांक 5 मई. 2020 एवं भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (संबी) के परिपन्न दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से कंपनियों को अपनी सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो– विज्ञाल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से बिना शेयरधारकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के करने की अनुमति दी और शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को भेजने की भी छट दी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट इलैक्टॉनिक मोड के माध्यम दिनांक 02 सितंबर, 2024 को उन सदस्यों को भेजी गई है जिनका ईमेल सेबी परिपत्रों के अनुपालन में डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com तथ बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com तथा एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com फ भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व ओर प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी, एजीएम में इलैकट्रॉनिक माध्यम से सभी मदों पर चर्चा करने के संबंध में उन सभी योग्य सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से ई-वोटिंग सर्विधा (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के समय वोटिंग दोनों) दे रही है जिनके नाम 18 सितंबर. 2024. बधवार (कट-ऑफ तिथि) को डिपॉजिटरी द्वारा सदस्य सुवी (दस्तावेजी रूप में रखे गए) या लाभकर्ता मालिकों की सूची में (इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए) में दर्ज किए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 सितंबर, 2024, रविवार (प्रात: 9:00 बजे) से शुरू होगी तथा 24 सितंबर, 2024, मंगलवार (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी और उसके बाद सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एनएसडीएल लॉगिन पोर्टल का उपयोग करते हुए एजीएम के दौरान वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुन: अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे

दस्तावेजी रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वे evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह पहले से ही पंजीकृत उपयोगकर्ता है तो मौजुदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग ई—वोटिंग के लिए कर सकते हैं।

कंपनी ने अंतिम लामांश भूगतान हेत् शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

किसी भी जानकारी के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ कर सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या श्रीमति पल्लवी माहन्ने, वरिष्ठ प्रबंधक को www.evoting@nsdi.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए सदस्यगण, श्री जे.के. सिंगला, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए, ईमेलः rta@alankit.com, दूरभाषः 011-42541234 से संपर्क कर सकते हैं।

मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिव जांचकर्ता के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में ई-वोटिंग और एजीएम प्रक्रिया की जांच करने के लिए कार्य करेंगे।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

विनांक: 03.09.2024 विकास गोयल



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम) पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 सीआईएन : L15492WB1924GOI004835 दुरभाष: 033 22225612

> ई-मेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com वेबसाइटः www.balmerlawrie.com

107वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम बुलाए जाने की सुचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के साधारण परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के पैरा 3 एवं पैरा 4 के साथ पठित साधारण परिपन्न सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के पैरा 3ए साधारण परिपन्न सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के उप पैरा (i)ए तथा साधारण परिपन्न सं. 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपन्नों") के अनुसार सदस्यों की शारीरिक रूप में उपस्थिति के बगैर **टू-वे वीडियो काँफ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो-विज्अल साधनौ ("ओएवीएम")** के जरिए बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड ("कंपनी" के सदस्यों की 107वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12,00 बजे भामास आयोजित की जाएगी

एमसीए परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") के मॉस्टर परिपत्र संदर्भ स सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांकित 11 ज़लाई, 2023 के साथ पठित सेवी परिपत्र संदर्भ सं. सेवी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार अंतिम तारीख यानी शुक्रवार, 23 अगस्त 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी का शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 को भेज दिए गए हैं। सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट https://www.balme lawrie.com, स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी की इक्विटी शेयरें सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट यार्न www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एवं केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड ("केफिन" (पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट तथा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com</u> पर भी जपलब्ध होगा।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों ("ई-वोटिंग") द्वारा 107वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर उनके वोटाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को केफिन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर अपना वोट रिमोटली ("रिमोट ई-योटिंग") डाल सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान वोट डाल पाएंगे। एजीएम में उपस्थित होने, रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के संबंध में विस्तारित निर्देशावलियां एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा नीचे उल्लेखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग शुरूः सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को सुबह 09.00 बजे।

रिमोट ई-वोटिंग की समाप्तिः वृधवार, 25 सितम्बर, 2024 को अपराहन 5.00 वजे जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारियों के रिजस्टर में दर्ज हैं, सिर्फ वें ही रिमोट ई-वोर्टिंग अथवा एजीएम के दौरान

ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे। ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी उपरोक्त अवधि के समाप्त होने पर केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रारूप निष्क्रिय कर दी जाएगी। अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को भौतिक प्रारूप अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक

तरीके से डाल सकते हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल का पता का पंजीकरण नहीं कराया है, वे एजीएम की ऊपर उल्लेखित सूचना में उल्लेखित निर्देशाविलयों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अथवा एजीएम के दौरान प्रदत्त ई-वोटिंग

कंपनी के सदस्यगण जो भौतिक प्रारूप में शेंयर धारण रखते हैं तथा कंपनी के साथ अपने ई-मेल पता का पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रारूप के माध्यम रे केफिन के पास समर्थित दस्तावेज सहित अपेक्षित आईएसआर प्रपत्र जमा करने का अनुरोध किया जाता है। अपने ई-मेल का पता पंजीकरण कराने के लिए सदस्यगण नीचे उल्लेखित विवरण पर मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेख, कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से से सम्पर्क कर सकते हैं। इकाई-बामर लॉरी एंड कं. लि.

सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट मं.- 31 एवं 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032

ii. दूरभाष नम्बर- 18003094001 iii. ईमेलः einward.ris@kintech.com

डिमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण ईमेल आईडी एवं अन्य विवरण के पंजीकरण के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों से सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के बावजूद भी सदस्यगण 107वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति सुचना भेजे जाने के उपरांत शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बने हैं तथा अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) शेयर धारण रखते हैं, evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसढीएल, सीढीएसएल अथवा केफिनटेक के साथ पंजीकृत हैं, तो वे वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सम्पर्क विवरणः किसी भी तरह के प्रश्न/शिकायत रहने पर आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए फ्रिक्वेंटली आक्रब्ड क्वैश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग युजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा उसे श्री जी, रामदास, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं.- 31 एवं 32, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500032 को संबोधित भेज सकते हैं अथवा einward.ris@kintech.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा 18003094001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं। कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण वही शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से

गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी। सदरयों द्वारा घोषणा किए जाने पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लामांश अंतिम तारीख यानी

गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी के शेयर धारण करने वाले र्शेयरधारकों को इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के अंदर भगतान कर दिया जाएगा।

ई-वोटिंग के निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया के जांचकर्ता के रूप में श्री नवीन कोठारी, मैसर्स एन, के एण्ड एसोसिएटस के स्वत्वाधिकारी अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 5935 एवं अभ्यास प्रमाणपत्र सं. 3725) को नियक्त किया गया है।

कुते बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

दिनांक : 4 सितम्बर, 2024

कविता भावसार कंपनी सचिव QW4767

शपथ पत्र

मै अशोक कुमार यादव उर्फ अशोक कुमार यादवा पिता- स्वर्गीय राम नारायण यादव साकिन-किशुनबाड़ी, पो.-चैनपुर, जिला सिवान, बिहार पिन-841203 शपथ पूर्वक घोषणा करता हॅं कि आधार संख्या 644378978084, पैन कार्ड ACYPY5380P तथा माध्यमिक प्रवेश पत्र में मेरा नाम अशोक कमार यादव दर्ज है माध्यमिक अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र में मेरा नाम अशोक कुमार यादवा पिता राम नारायण यादवा दर्ज है। अशोक कुमार यादव एवं अशोक कुमार यादवा पिता स्वर्गीय राम नारायण यादव दोनो मेरा ही नाम |है तथा मै समाज एवं आस-पास के क्षेत्रो में| उक्त दोनो नामों से जाना जाता हैं।

शपथ पत्र सं. 8154/दिनांक-22/08-2024

NABADWIP MUNICIPALITY SHORT TENDER NOTICE E-Tenders are invited by the

Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-038e/2024-2025.Tender ID :-2024_MAD 743078 1. Type of Work :- Water Body Rejuvenation under AMRUT 2.0.Bid Submission Start Date: 04-09-2024. Bid Submission End Date:- 17-09-2024 at 5:00 PM. N.B.: Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https:// wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in Sd/- Chairman Nabadwip Municipality

भारतीय साधारण बीमा निगम (भारत सरकार की एक कंपनी) GIC Re

पंजीकृत कार्यालय: 'स्रका', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दरभाष: +91-22-2286 7000 • फैक्स: +91-22-2288 4010 येबसाइट: www.gicre.in • ई-मेल: investors.gic@gicre.in सीआईएन L67200MH1972GOI016133 • आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या: 112

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक: एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय साधारण बीमा निगम की 52वीं वार्षिक

आम बैठक (एजीएम) गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 03.00 बजे (भारतीय समयानुसार) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विज्अल साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जो एमसीए के लागू परिपत्रों और कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों (सामृहिक रूप से वैधानिक प्रावधानों के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में जैसा की निर्धारित किया गया है, कार्य करेगी। एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में होगी। ए<mark>जीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना</mark>: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम की एजीएम बुलाने

वाली और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना मंगलवार 3 सितंबर, 2024 को उन्हें ईमेल से भेजी गई है जिनकी इंमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स (डीपी) / रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के पास पंजीकृत थीं। उपर्युक्त दस्तावेजों को निगम की वेबसाइट www.gicre.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा ई-बोटिंग एजेंसी मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("'एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting. nsdl.com पर भी देखा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई-वोटिंग: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ साथ अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में निगम ने रिमोट ई-वोर्टिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("'एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं:

विवरण	एजीएम से पहले	एजीएम के दौरान	
रिमोट ई-बोटिंग की शुरुआत	शनिवार 21 सितंबर, 2024 सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से	गुरुवार 26 सितंबर, 2024	
रिमोट ई-योटिंग का अंत	बुधवार 25 सितंबर, 2024 शाम 05.00 बजे तक (भारतीय समयानुसार)	गुरुवार 26 सितंबर, 2024 (एजीएम की समाप्ति के 15मिनट बाद)	
कट-ऑफ तिथि (मतदान की पात्रता के लिए)	गुरुवार 19 सितंबर, 2024		
एक्सेस करने के लिए वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com		
ई-वोटिंग इवेंट नंबर	EVEN - 130946		
	The state of the s		

सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-बोटिंग की प्रक्रिया देखें। केवल वहीं व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को सदस्यों/

- लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह वार्षिक आम बैठक में मतदान के साध-साध दुरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- सदस्यों के मताधिकार 19 सितंबर, 2024 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इकिटी शेयरों के अनपात में होंगे।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना

- भेजने के बाद लेकिन ई-वोटिंग की कट-ऑफ तारीख से पहले यानी 19 सितंबर, 2024 से पहले निगम का सदस्य बन जाता है, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियो नंबर/डीपी-आईडी क्लाइंट आईडी का विवरण देकर investors.gic@gicre.in पर निगम से ईमेल के द्वारा अनुरोध कर सकता है। ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि ये दरस्थ ई-वोटिंग के लिए लोंगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में नोट्स के तहत दिए गए
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भी भाग लें सकते हैं, लेकिन फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- 5. जो सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोर्टिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं ढाला है और अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र होंगे।
- वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले वैधानिक रिजस्टरों/दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छ्क सदस्य एजीएम की तारीख तक पैन कार्ड के साथ-साथ अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर बताते हुए ईमेल आईडी: cs.gic@gicre.in पर निगम को लिख सकते हैं।
- जो सदस्य एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार 09:00 बजे) और शनिवार 21 सितंबर, 2024 (भारतीय समयानुसार शाम 05:00 बजे) के बीच gicagm.speakers@gicre.in पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा। एजीएम के दौरान केवल उन सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुम ति होगी जिन्होंने स्पीकर के रूप में खुद को पूर्व-पंजीकृत किया है। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 8. प्रश्न पूछने के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-बोर्टिंग उपयोगकर्ता मैनुअल पर देख सकते हैं। सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं: टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 या 1800-22- 44-30 या एनएसडीएल से evoting@ nsdl.com पर नामित इंमेल आईडी से संपर्क करें।
- निगम के निदेशक मंडल ने 10 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एजीएम में अनुमोदन के 30 दिनों के पीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा। माननीय सदस्यगण ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कंपनी द्वारा सदस्यों को किया गया भुगतान या वितरित लाभांश कर योग्य है। निगम द्वारा सदस्यों को लाभांश के भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। लागू टीडीएस दरों को निर्धारित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभांश के लिए गुरुवार 12 सितंबर, 2024 को या उससे पहले संबंधित दस्तायेक जमा करें. लाभांश पर टीडीएस के बारे में विस्तृत जानकारी: https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/ investors-en/notice-communication-to-shareholders लिंक पर दिया गया है।
- 10.निगम ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागांश प्राप्त करने हेतु सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए रेकॉर्ड तारीख के रूप में बुधवार 11 सितंबर, 2024 निर्धारित किया है, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित तरीके से लाभांश भुगतान की समय पर प्राप्ति के लिए रेकॉर्ड तारीख को या उससे पहले अपने बैंक विवरण (खाता संख्या और आईएफएससी) और डाक
- डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी में रद्द चेक की एक प्रति के साथ अपने डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र के साथ केवाईसी दस्तावेज जमा करें।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए – सदस्यों से अनुरोध है कि वे पैन, केवाईसी, विवरण

या उसमें परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की रच-सत्यापित प्रतियों के साध फॉर्म आईएसआर -1 को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), कार्वी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032. दरभाष संख्या: (040) 6716 1562; फैक्स नंबर: (040) 2300 1153; ई-मेल पता: einward.ris@kfintech.com पर जमा करें।

। 1.सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्थायी खाता संख्या (पैन), केवाईसी विवरण और आरटीए (भौतिक शेयरों के मामले में) / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स (डीमैट शेयरों के मामले में) में नामांकन

यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicre.in) पर भी उपलब्ध है। भारतीय साधारण बीमा निगम के लिए

एसडी/-स्थानः मुंबई (सुरेश सावलिया) दिनांक: 03.09,2024 कंपनी सचिव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कंपनी सचिव ए25141

www.readwhele.com

स्थान : कोलकाता